



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-05122024-259174
CG-UP-E-05122024-259174

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4811]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024/ अग्रहायण 12, 1946

No. 4811]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2024/ AGRAHAYANA 12, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 30 नवम्बर, 2024

का.आ. 5203(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4593(अ) दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के बुलन्दशहर जिले के सिकन्द्राबाद एवं खुर्जा तहसील में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् मौजूदा नई दिल्ली-हावड़ा (कानपुर-लखनऊ सहित), मार्ग पर गतिसीमा को 160 किमी० प्रति घण्टा/200 किमी० प्रति घण्टा करने के लिए सब-सेक्शनिंग व पैरललिगं पोस्ट (SSP) के डिजाईन, सप्लाय, इरेक्शन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग हेतु अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20 अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् "अमर उजाला" और "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" में तारीख 25 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित किया गया था; और, इस परियोजना में प्राप्त सभी अक्षेपों का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसमें उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

और, यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 (च) की उपधारा (04) के अनुसरण में भूमि उर्पयुक्त वर्णित भूमि में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बुलन्दशहर के समक्ष अपना दावा इस अधिसूचना के प्रकाशन के आगामी 20 दिवस में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनूसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बुलन्दशहर जिले के सिकन्द्राबाद एवं खुर्जा तहसील के अंतर्गत 02 गाँव का सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बुलन्दशहर के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात् मौजूदा नई दिल्ली-हावड़ा (कानपुर-लखनऊ सहित), मार्ग पर गतिशीलता को 160 किमी० प्रति घण्टा/200 किमी० प्रति घण्टा करने हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला- बुलन्दशहर

राज्य-उत्तर प्रदेश

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	खसरा सं०	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (हे० में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सिकन्द्राबाद	फतहपुरजादों	186	0.1800	निजी	कृषि भूमि	शंकरपाल सिंह पुत्र मीठे सिंह व मनोज कुमार दत्तक पुत्र निरंजन सिंह व सतवीर सिंह पुत्र प्रेमपाल सिंह व श्रीमती अशर्फी पत्नी प्रेमपाल सिंह व यतीन सिंह अव्यस्क पुत्र मनवीर सिंह व कु० निकिता (अव्यस्क) पुत्री मनवीर सिंह संरक्षिका श्रीमती कुसमा(माता) व श्रीमती कुसमा पत्नी स्व० मनवीर सिंह व गजराज सिंह पुत्र भंवरपाल सिंह व श्रीमती रानी पत्नी स्व० अमरपाल उर्फ भंवरपाल व महीपाल सिंह, गजराज सिंह पुत्र अमरपाल व श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व० जसवन्त सिंह व

							अंकुर (अव्यस्क) पुत्र जसवन्त सिंह व कु० अर्पणा (अव्यस्क), कु० गोलू (अव्यस्क) पुत्रियां जसवन्त सिंह सं० सुनीता देवी (माता)
			योग	0.1800			
1	खुर्जा	इब्राहिमपुर जुनैदपुर उर्फ मौजपुर	439	0.1800	निजी	कृषि भूमि	इन्द्रमणी शर्मा, देवमणी शर्मा, राजमणी शर्मा, शशीमणी शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा
			योग	0.1800			
		कुल योग		0.3600			

[ई. फा. सं. एन.सी.आर.- एच. क्यू. शून्य. सी. ई. एल. ई. (मिस्क)/133/2023-ओ./ओ.डिफ्टी.सी. ई. ई./कांस्ट/सी.एन.बी.
(कम्प्यूटर सं. 98960)]

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 30th November, 2024

S.O. 5203(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railway (North Central Railway, Construction department), Notification number, **S.O. 4593 (E)** dated the **09th October, 2024** published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub Section (ii), **dated 21th October, 2024** (hereinafter referred to as the said notification) and issue under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act. 2008 (11of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed the said notification for the purpose of Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning of Sub-Sectioning & Paralleling Post (SSP) of Special Railway Project, namely Special Railway Project of **Raising of Speed to 160kmph/200kmph on existing New Delhi-Hawrah route (incl. Kanpur-Lucknow)** in District **Bulandshahr** of the state of Uttar Pradesh.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers "**Hindustan**" and "**The Times of India**" **Dated 25th October, 2024** under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, all the objections received in this project have been disposed of by the Competent Authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

And, that all persons interested in the above mentioned land in pursuance of sub-section (04) of section 20(F) of the said Act by the Central Government are hereby informed that they may, personally or through an agent or legal practitioner, be notified by the competent authority **Additional District Magistrate (E) Bulandshahr**, can submit his claim in the next 20 days from the date of publication of this notification in the office of the Competent Authority.

“SCHEDULE”

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the Special Railway Project of Raising of Speed to 160kmph/200kmph on existing New Delhi-Hawrah route (incl. Kanpur-Lucknow) project 02 villages in Sikandrabad & Khurja tehsil of Bulandshahr of the State Uttar Pradesh under Additional District Magistrate (E) Bulandshahr.

District-Bulandshahr

State Uttar Pradesh

Sr. No.	Name of the Tehsil	Name of the Village	Khasra No.	Area in Hectares	Type of Land	Nature of Land	Name of The Land owner/Interested persons
1	Sikandrabad	Fatehpurjadon	186	0.1800	Personal	Agricultural Land	Shankarpal Singh s/o Meethey Singh & Manoj Kumar Adopted s/o Niranjana Singh & Satveer Singh s/o Prempal Singh & Smt. Asharfi w/o Prempal Singh & Yateen Singh (Minor) s/o Manveer Singh & Ku. Nikita (Minor) d/o Manveer Singh Guardian Smt. Kusama (Mother) & Smt. Kusama w/o Late Manveer Singh & Gajraj Singh s/o Bhanwarpal Singh & Smt. Rani w/o Late Amarpal urf Bhanwarpal Singh & Mahipal Singh, Gajraj Singh s/o Amarpal urf Bhanwarpal Singh & Smt. Sunita Devi w/o Late Jaswant Singh & Ankur (Minor) s/o Jaswant Singh & Ku. Aparna (Minor), Ku. Golu (Minor) d/o Jaswant Singh Guardian Sunita Devi (Mother)
			Total	0.1800			
1	Khurja	Ibrahimpur Junaidpur Urf Maujpur	439	0.1800	Personal	Agricultural Land	Indramani Sharma, Devmani Sharma, Rajmani Sharma, Shashimani Sharma s/o Babulal Sharma
			Total	0.1800			
		Grand Total		0.3600			

[F. No. NCR-HQ0CELE(MISC)/133/2023-O/o Dy.CEE/C/CNB (Computer No.98960)]

VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer (Construction)